

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर नेशनल ट्रेस के अलावा कोई उम्मीदवार दूसरी किसी पोशाक में चल जाये तो उसे परमनालिटि टेस्ट से डिबार कर दिया जाय ।

**श्री तुलसीदास जाधव :** आल इंडिया सर्विसेज में शैड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासेज का जो परसेंटेज रखा गया है वह भर दिया है या नहीं और अगर वह नहीं भरा है तो उनको पूरा करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

**श्री हजरतबीस :** मेरे ध्यान में इस साल और पार साल दोनों सालों में उनका परसेंटेज बढ़ा है । सरकार ने उनके परसेंटेज को बढ़ाने के उद्देश्य से ही उनको ट्रेनिंग देने के लिये इलाहाबाद में एक ट्रेनिंग स्कूल खोला है और उसी तरीके से बंगलोर में भी एक स्कूल खोला गया है । वहां पर जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के तालीम पाते हैं वे जब इम्तहान में बैठते हैं तो पास हो जाते हैं ।

**Soviet Delegation's Visit to India**

- +
- \*311: { **Shri B. P. Yadava:**  
**Shri Dhaan:**  
**Shri Bishanchander Seth:**  
**Shri Yashpal Singh:**

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a 3-Member Soviet Delegation consisting of writers and historians visited India recently;

(b) if so, the manner in which their visit proved helpful to India;

(c) the number of places they visited in India; and

(d) whether any similar delegation from India is going to Russia; and if so, when?

**The Minister of Education (Shri M. C. Chagla):** (a) Only one Soviet His-

torian visited India during December, 1963, under the Indo-Soviet Cultural Exchange Programme.

(b) The purpose of the Indo-Soviet Cultural Exchange Programme is to promote and strengthen friendly relations which exist between the two countries. Every such visit is expected to contribute towards that end.

(c) Besides Delhi, Bombay and Poona which he visited under the Exchange Programme he also visited Mathura and Agra under the programme arranged by the XXVI INTERNATIONAL CONGRESS OF ORIENTALISTS in which also he participated.

(d) A 3-member delegation of Indian writers visited the USSR in October-November, 1963.

**श्री भी० प्र० यादव :** श्रीमन्, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह के शिष्टमंडल से लाभ पहुंचा है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य देशों से भी कुछ ऐसे शिष्टमंडल बुरलाने का इरादा है, यदि है तो वह शिष्टमंडल किन किन देशों से आयेंगे ?

**शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) :** बहुत से देशों के साथ हमारा ऐस कलचरल और साइंटिफिक एग्रीमेंट है । जिन जिन देशों के साथ हमारा इस तरह का एग्रीमेंट है वहां से हमारे यहां स्कालर्स और प्रोफेसर्स आयेंगे और हिन्दुस्तान से हम रे स्कालर्स और प्रोफेसर्स वहां उन देशों में जायेंगे

**श्री तुलसीदास जाधव :** यह जो सोवियट डेलीगेशन यहां आया था और यहां से भी वहां डेलीगेशन गया था तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि बाहर से जो डेलीगेशन यहां आते हैं वह वापिस जाने के बाद रिपोर्ट करते हैं या नहीं, यदि वह रिपोर्ट देते हैं तो वह रिपोर्ट यहां हमें मिलेगी या नहीं ?

**श्री म० क० चागला :** अब वह रिपोर्ट करते होंगे तो खुद की गवर्नमेंट को, खुद की

सोसाइटी को और खद की आगनाइजेशन को करते होंगे ।

**अध्यक्ष महोदय :** जब हमारे वहां के स्कालर्स राइटर्स और हिस्टोरियंस दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या वह वापिस आकर हमें रिपोर्ट देते हैं ?

**श्री मु० क० चागला :** मैं इस विभाग में नया आया हूँ और मुझे मालूम नहीं है कि वह रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते हैं ।

**श्री यशपाल सिंह :** यह लोग जो आये थे वह किसी एकेडमिक परपज को लेकर आये थे पोलिटिकल परपज को लेकर आये थे ?

**श्री मु० क० चागला :** कलचरल एप्रिमेंट में कोई पोलिटिकल परपज नहीं है। साइंटिफिक या कलचरल परपज के अलावा और कोई दूसरा परपज नहीं है ।

**श्री राम सहाय पण्डेय :** सांस्कृतिक मंडल के आदान प्रदान के सम्बन्ध में क्या संसद् सदस्यों को भी उसमें कोई स्थान देने की योजना है ?

**Shri M. C. Chagla:** Yes; if they are qualified, they would be.

#### Committee on Traffic Congestion in Delhi

\*312, **Shri Shiv Charan Gupta:** Will the Minister of Home Affairs be pleased state:

(a) the main recommendations of the Committee appointed by his Ministry to suggest steps to ease traffic congestion in Delhi; and

(b) which of the recommendations have been implemented and which of them are likely to be implemented during the Third Plan period?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis):**

(a) The main recommendations are given in the Statement placed on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-2397/64].

(b) These are under consideration in consultation with the concerned Ministries, Delhi Administration and the Municipal bodies.

**Shri Shiv Charan Gupta:** During the last four or five months, from September to January or February, a large number of prosecutions had been launched against offenders of traffic laws. I want to know the total number of prosecutions and how many of them were in respect of trucks and buses.

**Shri Hajarnavis:** That information is not with me presently. If he writes to me, I will give him the information.

**Shri Shiv Charan Gupta:** In the Master Plan a provision has been made for developing Bela Road, Azadpur and Rohtak Road sides for parking sites and for removing congestion from the City, Sabzi Mandi and Karol Bagh areas. Because it is not clear from the recommendations whether there is any proposal to develop these sites, I want to know whether there is any proposal to develop these sites.

**Mr. Speaker:** That also is a matter of detail.

**Shri Sham Lal Saraf:** Last year in reply to one of the questions it was stated that in order to ease the traffic congestion in the City, there will be a ring railway; that will be one of the things that will stop it. May I know if that project is still on and will be completed by some time; if so, by when?

**Shri Hajarnavis:** Yes, Sir; it is under the consideration of the Railway Ministry.

**Shrimati Savitri Nigam:** Very good research work has been done in the Road Research Institute. I want to know whether the recommendations and the findings of the Road Research Institute have been implemented so far or not.